

## प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 24-10-2020

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 23-10-2020 को पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही।

दिनांक 23-10-2020 को जनपद सिद्धार्थनगर के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन /अवैध शराब/ संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया। जिसके अन्तर्गत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा एम0वी0 एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 85 वाहनों से 70,500/ रु0 समन शुल्क वसूल किया गया।

01- थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त ओम प्रकाश सोनी उर्फ गुड्डू सोनी पुत्र काशीराम सोनी निवासी कस्बा इटवा निकट माता प्रसाद इण्टर कालेज के पास थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 01 अद्द चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 214/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

02- थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त सन्तरी प्रसाद पुत्र रामलखन निवासी-पदमपुर थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगरके पास से 5 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 215/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

03- थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त शत्रुघन पुत्र सूरज लाल निवासी-शास्त्रीनगर थाना व जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 17 शीशी अवैध देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 305/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

## प्रेस नोट दिनांक 24-10-2020

एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत की कार्यवाही में 65 शोहदे पकड़े गये ।

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम और जनपद के सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा आज जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके और पार्क आदि स्थानों पर पाए गए 65 मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही की गयी ।

माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के क्रम में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 24.10.2020 को प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती संध्या रानी तिवारी तथा समस्त थानो की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा मुख्य सड़को, चौराहों आदि पर चेकिंग की गयी। इस दौरान 65 शोहदे पकड़े गये । शोहदो द्वारा माफी मांगने पर भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने की हिदायत देने के बाद छोड़ा गया ।

जनपद के विभिन्न कस्बों और गावो तथा विद्यालयो मे जागरूकता अभियान चलाया गया । जिसके अंतर्गत आज जनपद में सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन में मिशन शक्ति के तहत आपस में एक दूसरे से वार्तालाप किया गया और नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे 1090 वीमेन पॉवर हेल्पलाईन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाईन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा के सम्बन्ध जानकारी दी गयी ।

एण्टी रोमियो टीम का विवरण-

- 01- महिला उ0नि0 श्रीमती संध्यारानी तिवारी प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02-आरक्षी रामविलास एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- आरक्षी राकेश कुमार यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04-महिला आरक्षी अमिता पटेल एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 05- महिला आरक्षी रिनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 06- विभिन्न थानो पर गठित एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।